



शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

E-mail-rdc@csu.co.in

पत्रांक- के.सं.वि./गं.ना.झा परिसर/शो.प्र. - 12/2023/763

Tel. 0532-2977532

29.03.2023

सूचना

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा के अङ्गतया साक्षात्कार/वाक् परीक्षा में भाग लेने वाले सभी शोधच्छात्रों को सूचित किया जाता है कि वाक् परीक्षा हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शोधनीति तथा उसमें निर्दिष्ट प्रमुख शोधक्षेत्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुरूप शोधक्षेत्र का चयन कर इस क्षेत्र में पूर्व में किए गए अनुसन्धान वाङ्मय का अनुशीलन करें।

साक्षात्कार में शोधदृष्टि तथा स्वाभीष्ट शोधक्षेत्र में अनुसन्धान हेतु सम्भावित विषय की प्रस्तुति PPT के माध्यम से शोधच्छात्र को प्रस्तुत करनी होगी। इस साक्षात्कार में छात्र के शोधविषयक दृष्टि की तथा शोधसम्बद्ध साहित्य परिज्ञान की परीक्षा की जाएगी। प्रस्तुति हेतु संस्कृत भाषा में अनिवार्य रूप से PPT प्रस्तुत करना होगा। संस्कृत के साथ साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में भी PPT बनाकर रख सकते हैं। साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से अप्रैल माह के तृतीय सप्ताह में या उसके पश्चात् सम्भावित है। इस कालावधि में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की शोधनीति तथा उसमें निर्दिष्ट प्रमुख शोधक्षेत्रों का अनुशीलन कर साक्षात्कार में प्रस्तुति हेतु पूर्ण तैयारी करें।

साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस सन्दर्भ में समय-सारणी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

साक्षात्कार में PPT के माध्यम से प्रस्तुति में अवधेय अंश

1. शोधनीति (Research Policy) में निर्दिष्ट शोधक्षेत्र (Thrust Area) के अन्तर्गत अपने अभीष्ट अवांतर शोधक्षेत्र का उल्लेख अवश्य करें।
2. शोधनीति एवं शोधक्षेत्र हेतु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की वेब-साइट <https://sanskrit.nic.in/> का अवलोकन करें अथवा शोधनीति एवं शोधक्षेत्र हेतु नीचे दिये गये लिंक को क्लिक कर अवलोकन करें।
https://drive.google.com/drive/folders/19hR_JYxzEzi0nQ7WB75IUItqT2S-4geK?usp=share_link
3. अपने अभीष्ट क्षेत्र एवं प्रस्तावित शीर्षक पर पूर्वकृत अनुसन्धान विषयक वाङ्मय के अनुशीलन का उल्लेख अपनी PPT प्रस्तुति में अवश्य करें।
4. क्रियमाण शोध की विशेषता/अपूर्वता का उल्लेख करें।
5. शोध पद्धति सम्बद्ध ज्ञान
 - i. शोधविधि
 - ii. शोध उद्देश्य
 - iii. शोध की आवश्यकता
 - iv. शोध की अपूर्वता (विशेषता) एवं उपयोगिता
 - v. प्रविधि ज्ञान (तकनीकी)
6. प्रत्येक शोधछात्र को कुल 8-10 मिनट दिये जायेंगे। इसके अन्तर्गत प्रस्तुति एवं प्रश्नोत्तर काल भी समाहित होगा।
7. साक्षात्कार हेतु कुल 30 अंक हैं।
 - i. शोधदृष्टि / शोध पद्धति ज्ञान – 10 अंक
 - ii. शास्त्र / विषय ज्ञान - 10 अंक
 - iii. प्रस्तुति / सम्प्रेषण / विषय निरूपण - 10 अंक